


## शैक्षणिक कैलेंडर 2026-27

शारीरिक शिक्षा विभाग, वी एस एस डी कॉलेज, कानपुर

| क्र.सं.                                                   | शैक्षणिक सत्र 2026-27 का प्रवेश/परीक्षा/शिक्षण कार्यक्रम                       | दिनांक                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>प्रथम सेमेस्टर (Odd Semester)</b>                      |                                                                                |                          |
| 1                                                         | प्रवेश की अंतिम तिथि                                                           | 25.07.2026               |
| 2                                                         | सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि                                 | 27.07.2026               |
| 3                                                         | Mentorship Sessions                                                            | Last Saturday in a Month |
| 4                                                         | सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि                                    | 31.10.2026               |
| <b>तृतीय, पंचम एवं सेमेस्टर (Odd Semester)</b>            |                                                                                |                          |
| 1                                                         | सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि                                 | 21.07.2026               |
| 2                                                         | Mentorship Sessions                                                            | Last Saturday in a Month |
| 3                                                         | सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि                                    | 31.10.2026               |
|                                                           | Departmental 3 Days Physical Fitness Program for Students. (Sem I, III and V)  | October/November 2026    |
|                                                           |                                                                                |                          |
| <b>द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर (Even Semester)</b> |                                                                                |                          |
| 1                                                         | सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि                                 | 04.01.2027               |
| 2                                                         | Mentorship Sessions                                                            | Last Saturday in a Month |
| 3                                                         | सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि                                    | 03.04.2027               |
|                                                           | Departmental 3 Days Physical Fitness Program for Students. (Sem II, IV and VI) | March/April 2026         |

  
विभागाध्यक्ष

शारीरिक शिक्षा विभाग

# V.S.S.D COLLEGE, KANPUR

Time Table Session 2026-27

ODD SEMESTER

## DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION

23/11/26

P.B.No. PE 0125/77/26

| Day       | 09:45 to 10:00             | 11:00 to 12:00                                    | 12:00 to 01:00                                    | 01:00 to 02:00                                    | 02:00 to 03:00                           | 03:00 to 04:00                                  |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|           |                            | B.A./B.Sc./B.Com<br>SEM - 1<br>Theory & Practical | B.A./B.Sc./B.Com<br>SEM - 3<br>Theory & Practical | B.A./B.Sc./B.Com<br>SEM - 5<br>Theory & Practical | B.A./B.Sc./B.Com<br>SEM - 1<br>Practical | B.A./B.Sc./B.Com<br>SEM - 3                     |
| Monday    | P<br>R<br>A<br>Y<br>E<br>R | PAPER I<br>N.Y.                                   | PAPER I<br>N.Y.                                   | PAPER I<br>N.Y.                                   | PAPER II<br>N.Y.                         | PAPER II<br>R.S.<br>Practical                   |
| Tuesday   |                            | PAPER I<br>N.Y.                                   | PAPER I<br>N.Y.                                   | PAPER I<br>N.Y.                                   | PAPER II<br>N.Y.                         | PAPER II<br>R.S.<br>Practical                   |
| Wednesday |                            | PAPER I<br>N.Y.                                   | PAPER I<br>N.Y.                                   | PAPER II<br>N.Y.                                  | PAPER II<br>N.Y.                         | B.A./B.Sc./B.Com<br>SEM - 5<br>PAPER II<br>R.S. |
| Thursday  |                            | PAPER I<br>N.Y.                                   | PAPER I<br>N.Y.                                   | PAPER II<br>N.Y.                                  | PAPER II<br>A.P.                         | SEM - 5<br>PAPER II<br>R.S.                     |
| Friday    |                            | PAPER II<br>N.Y.                                  | PAPER II<br>A.P.                                  | PAPER III<br>A.P.                                 | PAPER II<br>R.S.                         | SEM - 5<br>PAPER II<br>R.S.                     |
| Saturday  |                            | PAPER II<br>A.P.                                  | PAPER II<br>R.S.                                  | PAPER III<br>A.P.                                 | PAPER II<br>R.S.                         | SEM - 5<br>PAPER II<br>R.S.                     |

B.A./B.Sc./B.Com. Semester-1 : Paper 1 Theory - Elementals of Physical Education, Paper 2 Practical - Fitness & Yoga

B.A./B.Sc./B.Com. Semester-3 : Paper 1 Theory - Anatomy & Exercise Physiology, Paper 2 Practical - Health & Physiology

B.A./B.Sc./B.Com. Semester-5 : Paper 1 Theory - Athletic Injuries & Physiotherapy, Paper 2 Theory - Kinesiology & Biomechanics in Sports.

Paper 3 Practical - Physiotherapy & Sports.

N.Y. - Dr. Naman Yadav, R.S. - Dr. Raghendra Singh (Asst. Professor), A.P. - Shri Anoop Pandey (Research Scholar)

Prof. R.D. P.C. College, Kanpur  
Head Department of Sports  
Physical Education